



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 मई, 2021
ज्येष्ठ 7, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 14 / 2021 / 678 / सात-न्याय-2-2021-58जी-2001

लखनऊ, 28 मई, 2021

अधिसूचना

प०आ०-129

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) (ख) और उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 के नियम 3 (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित न्यायिक अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में प्रत्येक के सापेक्ष उल्लिखित अपर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करती हैं।

अनुसूची

क्रमांक	जिलों के नाम	अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के पद हेतु प्रस्तावित अधिकारियों के नाम
1	2	3
1	आगरा	1-श्रीमती पारूल पनवार 2-श्री प्रदीप कुमार मिश्रा
2	अलीगढ़	1-श्रीमती ज्योति सिंह 2-श्रीमती अनुराधा पुंडीर 3-श्रीमती गरिमा सिंह
3	अम्बेडकर नगर	1-श्रीमती पूजा विश्वकर्मा
4	बलिया	1-श्रीमती श्रद्धा तिवारी
5	बरेली	1-सुश्री कविता निगम

1	2	3
6	बस्ती	1-श्रीमती अंजू कनौजिया
7	फर्रुखाबाद	1-श्री हेमेन्द्र कुमार सिंह
8	फतेहपुर	1-कुमारी मंजूला सिरकार
9	जालौन स्थान उरई	1-श्रीमती अमृता शुक्ला
10	झांसी	1-श्रीमती ममता गुप्ता
11	कानपुर नगर	1-श्री आलोक कुमार
		2-श्री सैफ अहमद
12	मथुरा	1-श्री अरविंद कुमार शुक्ला
13	मऊ	1-श्री आनंद प्रकाश सिंह
14	मेरठ	1-श्रीमती बुशरा आदिल रिजवी
15	मुजफ्फर नगर	1-श्री दीपकांत मणि
		2-श्री राम नेत
16	प्रतापगढ़	1-श्रीमती अल्का भारती
17	रायबरेली	1-सुश्री अर्चना तिवारी
		2-सुश्री पूनम सिंह-।
18	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	1-डॉ० शालिनी सिंह
19	सिद्धार्थनगर	1-श्रीमती सपना शुक्ला
20	वाराणसी	1-श्रीमती ममता सिंह

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 14/2021/678/VII- Nyay-2-2021-58G-2001, dated May 28, 2021:

No. 14/2021/678/VII- Nyay-2-2021-58G-2001

Dated Lucknow, May 28, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) and sub-section (2) (b) of section 4 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) and rule 3(b) of the Uttar Pradesh Family Court Rules, 1995, the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to appoint the Judicial Officers mentioned in Column-3 of the Schedule below as the Additional Principal Judge of the Family Court mentioned against each in the Column-2 of the said Schedule with effect from the date of their taking over charge of their respective office.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Districts	Name of the Officers proposed for the post of Additional Principal Judge, Family Court.
1	2	3
1	Agra	1. Smt. Parul Panwar
		2. Sri Pradeep Kumar Mishra
2	Aligarh	1. Smt. Jyoti Singh
		2. Smt. Anuradha Pundir
		3. Smt. Garima Singh
3	Ambedkar Nagar	1. Smt. Pooja Vishwakarma
4	Ballia	1. Smt. Shraddha Tiwari
5	Bareilly	1. Sushri Kavita Nigam

1	2	3
6	Basti	1. Smt. Anju Kanaujia
7	Farrukhabad	1. Sri Hemendra Kumar Singh
8	Fatehpur	1. Km. manjula Sircar
9	Jalaun at Orai	1. Smt. Amrita Shukla
10	Jhansi	1. Smt. Mamta Gupta
11	Kanpur Nagar	1. Sri Alok Kumar
		2. Sri Saif Ahmad
12	Mathura	1. Sri Arvind Kumar Shukla
13	Mau	1. Sri Anand Prakash Singh
14	Meerut	1. Smt. Bushra Adil Rizvi
15	Muzaffar Nagar	1. Sri Deep Kant Mani
		2. Sri Ram Net
16	Pratapgarh	1. Smt. Alka Bharti
17	Rae Bareli	1. Sushri Archana Tiwari
		2. Sushri Poonam Singh-I
18	Ramabai Nagar (Kanpur Dehat)	1. Dr. Shalini Singh
19	Siddharth Nagar	1. Smt. Sapna Shulka
20	Varanasi	1. Smt. Mamta Singh

By order,
 PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,
Pramukh Sachiv.